

निर्णय व इजलारा अन्तर सिंह नेहरा (मध्यस्थ) आई.ए.एस. जिला कलेक्टर, जयपुर(राज.)
प्रकरण संख्या 15/2003 (आर्बीट्रेटर प्रार्थना)
सूर्य प्रकाश पुत्र श्री देवी साहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम वीलपुर, तहसील आमर, जिला जयपुर ।


प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ जरिये राशिये जल एवं भूतल परिवहन मंत्रालय (सडक पथ) नई दिल्ली ।
2. भारत संघ जरिये मुख्य अधीक्षण अधिपाशी अभियन्ता नेशनल हाईवे कर्मांक-8 जयपुर ।
3. राक्षम अधिकारी नेशनल हाईवे कर्मांक-8, पता-21/73 कावेरी पथ मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स याचिका सन्दर्भित ग्राम वीलपुर हरमाडा बाबत बिना अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 30 मई 2002 के अवार्ड पारित दिनांक 20.11.2002 के क्रम में अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित हेतु पंच महोदय (आर्बीट्रेटर) के समक्ष मामला उपर्युक्त किये जाने हेतु ।



उपस्थित:-


1. श्री मोहम्मद ईस्लाम खान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार मित्तल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

1. संक्षेप में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी क्लेमेन्ट के हित स्वागित्व एवं नियंत्रण की भूमि ग्राम वीलपुर तहसील आमर जिला जयपुर की बाबत मुख्य सडक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8, हरमाडा से चन्दवाजी जयपुर बाईपास के निर्माण के प्रयोजन से उसकी भूमि अंश को बिना अधिसूचना के खसरा नम्बर 558 में से 618 वर्गमीटर अवाप्ति योग्य निश्चित किया। उक्त भूमि पर स्थित स्ट्रैक्चर्स, पेड पीचे, आवास, पक्का निर्माण, चैनल्स होदिया, पक्का/कच्ची बाउण्डरी वाल, गेटस आदि आदि की बाबत व उसके सम्बन्धित विभिन्न विधिक, वास्तविक आपत्तियों के विधि सम्मत निस्तारण तथा अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौति देने के विधिक अधिकार को सुरक्षित रखते हुये अल्टरनेटिवली भूमि एवं उस पर स्थित सभी स्ट्रैक्चर्स आदि के बाबत मुआवजा (क्षतिपूर्ति राशि) के निर्धारण आर्बीट्रेटर से करवाने क्रम में याचिका प्रस्तुत की है।

निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया व उसके पश्चात राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.05.2002 को किया गया है निश्चित ही निर्णय में विज्ञप्ति का प्रकाशन लम्बे अन्तराल पर हुआ जो सदभावी आवश्यकता को प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस प्रकार लम्बी देरी व अन्तराल पर स्पष्ट एक्वीजीशन की कन्टीन्युटी नहीं रखता है। साथ ही धारा (3) की अन्य आज्ञापक कार्यवाहियां नहीं की गई इस आधार पर आवृत्ति निरस्तनीय है। अधिसूचना दिनांक 30.05.2002 के पठन से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में स्थित भूमि की कथित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हरमाडा से चन्दवाजी जयपुर बाईपास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेन बनाने हेतु भूमि की आवश्यकता है। प्रस्तुत हरमाडा के चन्दवाजी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को बाईपास बनाने हेतु आपत्तिकर्ता की भूमि की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। आपत्तिकर्ता की भूमि स्वीकृत मास्टर प्लान में ग्रीनबेल्ट जोन की भूमि है। इस भूमि को हरमाडा से चन्दवाजी राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार हेतु अवाप्त किये जाने का कतई कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मास्टर प्लान जो जयपुर का बना हुआ उसमें यह भूमि स्पष्ट ग्रीन बेल्ट के रूप में चिह्नित है। ग्रीन बेल्ट विकसित करने के उद्देश्य से भूमि की आवृत्ति नहीं की जा सकती और न ही ग्रीनबेल्ट विकसित करना हरमाडा चन्दवाजी राष्ट्रीय राजमार्ग के उद्देश्यों की परिसीमा में है। प्रार्थी ने भूमि को विकसित करने में लाखों रूपयों की अर्थराशि व मानव श्रम लगाया है। जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 27 के अन्तर्गत तत्कालीन अर्बन इन्फ्रूवेन्ट एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया गया मास्टर प्लान स्पष्ट रूप से अधिनियम संख्या 25 सन् 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया हुआ स्वीकृत रूप से मान्य है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1983 की धारा 11 के प्रावधान भी इसी अवधि की स्थिति की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान जो जयपुर के लिए सन् 1975 में व उसके पश्चात 1998 में स्वीकृत होकर प्रकाशित हुआ उसके विपरित आपत्तिकर्ता की हरमाडा से चन्दवाजी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के कथित प्रयोजन के लिये अवाप्त किये जाने का कतई कोई ठोस विधिक आधार नहीं है। वस्तुतः मास्टर प्लान में जो भूमि का लैण्ड यूज बतलाया गया है वह पूर्णतया ग्रीन बेल्ट है कि जिसके बाबत प्रथम मास्टर प्लान में परिवर्तन विधिक रूप से ही किया जाना आवश्यक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लैण्ड का यूज परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अवाप्तिग्रस्त अधिसूचना के क्रम में बसे हुये हजारों की संख्या में लोग आबाद हैं। अवाप्ति से पूर्व काचिज लोगों के बसाने के लिये उपयुक्त स्कीम व स्थल की आवश्यक व्यवस्था के अभाव में कार्यवाही अवाप्ति पूर्णतय अवैध है। हरमाडा से चन्दवाजी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य किसी भी प्रकार खेती, बागवानी तथा तय उपयोग की किसी कार्य की उन्नति करने का नहीं है और ना ही ओ सकता है। ग्रीनबेल्ट एरिया की भूमि केवल इसी प्रयोजन की है। केन्द्र सरकार के पास हरमाडा से चन्दवाजी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग के अथोरिटी द्वारा प्रेषित की हुई कोई योजना स्कीम व सर्वे रिपोर्ट आदि नहीं है और न ही ऐसी किसी विस्तार योजना की कोई आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु हो ही सकती है इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के समक्ष एवं मान्यता प्राप्त विभाग ने भी उक्त वर्णित भूमि विषयक कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। कथित रूप से दर्शित आवश्यकता यदि है तो भी वह पूरी तरह वाणिज्यक लाभ अर्जित करने की है, जो पूर्णतया मैलाफाईड व कलरेबल एक्साइज ऑफ पावर की परिसीमा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की अनदेखी कर भूमि को अवाप्त किये जाने की जो कार्यवाही प्रारम्भ की गई है वह विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय



क्टर

है। अवाप्ति की कार्यवाही से पूर्व मास्टर प्लान में दर्शित ग्रीनबेल्ट के जैम्ड यूज को परिचालित नहीं किया न ही विधिवत अवाप्तिग्रस्त भूमि का ले आउट प्लान अनुमानित योजना व्यय को निश्चित किया गया है। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में अवाप्ति कार्यवाही स्वतः ही निरस्तनीय है। अवाप्तिग्रस्त कथित योजना की भूमि को अवाप्त करने के लिए जो अधिसूचना अस्तमित धारा 3 की प्रस्तावित की प्रकाशित की गई है उसके मध्य में ही तथा लगती हुई अनेकों भूमियों को जानबूझ कर अवाप्ति में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह सभी कार्यवाहियाँ प्रभावशील व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से की गई है। अधिनियम 1955 के अनुसार अवाप्त की कार्यवाही किसी अधोरीटी के लिये बिना पूर्व योजना व स्कीम को निर्मित करने तथा अवाप्ति की विधिक औचित्यता पर विवेक पूर्वक विचारण कर लिये जाने के पूर्व कानूनन नहीं की जा सकती। प्राचीन अवाप्ति की जा रही भूमि को हरमाडा से चन्द्रवाजी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार हेतु अवाप्त कराये जाने का अधिकार इस कारण भी नहीं है कि अवाप्तिग्रस्त शुदा भूमि जो उनकी अय का स्रोत भी है तथा तकनीकी रूप से विकसित है, उसे अवाप्त पर राष्ट्र हितों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। यह सभी कार्यवाही स्पष्टतः भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की भाङना के विपरीत होने के कारण भूमि की अवाप्ति कार्यवाही विद्वा किये जाने योग्य है। अवाप्ति कार्यवाही के प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण अवाप्ति की जा रही भूमियों के हितधारी व्यक्तियों का सर्वक्षण नहीं कराया गया और इसी कारण नोटिस हितधारी व्यक्तियों आर्धत भूमि पर कायिज लोगों को प्रेषित नहीं हुए। कानूनन अवाप्ति से पूर्व हितधारी व्यक्तियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व इस प्रकार का कोई नोटिस हितधारियों को विधिवत नहीं दिया गया। कानूनन वर्तमान अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना गैर कानूनी है। अवाप्ति की जा रही भूमि में भारी संख्या में हरे फलदार वृक्ष हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार योजना के नाम पर बर्बाद करना देश की स्वीकृत पर्यावरण नीति के साथ खुला माखोल है। अवाप्ति के लिए धारा 3 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग की कोई योजना ही नहीं बनी तथा ऐसी किसी स्कीम के लिए सार्वजनिक आपत्तियों की भी मांग नहीं की गई। स्कीम का निर्धारण जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में केवल जयपुर विकास प्राधिकरण की परिसीमा में ही किया जाना सम्भव है। अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने के मेन्डेटरी नोटिफिकेशन का प्रोफार्मा अन्य प्रभावी अवाप्ति अधिनियम में प्रावधित है। उक्त प्रफार्मा में कोई नोटिस ना तो दिया गया ना ही प्रकाशित किया गया है। अतः कार्यवाही कानूनन प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व अवाप्ति के हेतुक के लिये प्रथम दृष्टया योजना तैयार किया जाना आवश्यक होती है जिसके साथ केन्द्र सरकार, राजस्व अधिकारियों से विचार करती है कि योजना के लिये अधिक उपयुक्त विकल्प तो उपलब्ध नहीं है। जब यह तय हो जाता है कि विकल्प नहीं है तो प्रारम्भिक योजना के लिये भूमि अवाप्ति के लिए अपात्तियां मांगी जाती है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। मात्र यह कह कर अवाप्ति प्रारम्भ किया जाना गैर कानूनी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिये भूमि की आवश्यकता है। यह कथन पूर्ण अस्पष्ट है, स्पष्ट प्रयोजन के अभाव में उक्त अवाप्ति गैर कानूनी तथ्यों के आधार पर अनुचित है। कथित अवाप्ति भूमि बाबत विस्तार योजना की प्रति प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अधिकारी एवं अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय से मांगी गई, परन्तु कार्य योजना उपलब्ध नहीं कराई गई। क्योंकि ऐसी किसी योजना का प्रारूप तैयार ही नहीं हुआ और न ही ले आउट ही उपलब्ध हुआ। अवाप्ति कार्यवाही को



लवटर
पुर

सम्पादित करने के लिये धारा 3 ए की परिधीमा में विधिवित सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। अवाप्ति से पूर्व विस्तार योजना के लिये फण्डस एलोटेट नहीं किये गये। अवाप्ति के लिए कोई पब्लिक परपज नहीं है। इस क्षेत्र की भूमियों को नियमों के अन्तर्गत यदि ऐसी आवादी भी मानी जाती है, तो उसका औसत गुआवजा कम से कम 2000/-रुपया प्रति मीटर से कम नहीं हो सकता है और यदि इस तथ्य पर आंकलन किया जावे तो सन्दर्भित भूमियों का गुआवजा ही अरबों रूपयों में गुआवजा राशि के रूप में देय होगा। साथ ही इसके विकास पर व्यय करने हेतु अतिरिक्त तौर पर भारी धनराशि अरबों रूपयों में और चाहिये थी। इसलिए अवाप्ति कार्यवाही कात्पनिक, अव्यवहारिक व बदनियतिपूर्ण है। गौके के सर्वे से तथा गत वर्षों की गस्त गिरदावरी आदि के अवलोकन से यह प्रमाणित होना कि भूमि पूर्णतया सिंचित है। सिंचित भूमि को अवाप्त न किये जाने के युक्ति युक्त व वास्तविक आधार है। राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी गत अनेकों वर्षों से नहीं बनी है तथा उसमें अंकित भूमि की किरम व वर्षों पूर्व परिवर्तित स्वरूप ले चुकी है। क्षेत्र में औसतन पांच बीघा में हुए हैं। पानी निकास के साधन एवं विद्युत कनेक्शन है। गत वर्षों के निरन्तर अकाल से कुओं को गहरा व बोरिंग कराने में भारी धन राशि हाल ही के वर्षों में व्यय की गई है तथा वर्तमान में सभी कुओं में लगभग पन्द्रह से बीस घंटे निरन्तर प्रतिदिन पानी सप्लाई की क्षमता है। इस क्षेत्र की भूमि की मिट्टी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षित रूप से जयपुर में सबसे अधिक उपज क्षमता को धारित करती है। अवाप्ति क्षेत्र की अधिकांश भूमि में भारी संख्या में हरे वृक्ष लगे हुये हैं, जिन्हें प्रार्थी ने व अन्य गांव वाले ने केन्द्रीय सरकार की अधिक वृक्ष लगाओं योजना की क्रियान्विति में प्रयास अपने व पर्यावरण नीति के तहत अधिक हरे वृक्षों के लिए करोड़ों रूपये खर्च किया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर हजारों की तादाद में लगे सघन वृक्षों को कथित योजना के नाम पर समाप्त करने का जो कार्य अग्रेसर है वह कतई गलत व विधि विरुद्ध है। प्रार्थी की जमीन मुख्य सडक जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे संख्या 8 के पास सडक पर होने के कारण भूमि की उपादेयता अधिक है भूमि के चारों ओर आवासीय कालोनियां बस चुकी है तथा ऐसे क्षेत्र में बाईपास की विस्तार की कथित योजना पूरी तरह से तुगलक शाही योजना है जिसे मूर्त रूप दिया जाना प्रथमतः सम्भव नहीं है तथा यदि सम्भव किया जाता है तो यह अत्यन्त खर्चीला तथा राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग प्रमाणित होगा। धारा 3 के अन्तर्गत प्रावधिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही न करके एवं मनमाने ढंग से अवाप्ति के संबंध में धारा 3 (सी) की सुनवाई को बतला कर केन्द्र सरकार को जो रिकार्ड प्रेषित किया गया है वह कानूनी विधिक प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। अवाप्ति की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 के पश्चात सक्षम अधिकारी के कार्यालय में योजना क्षेत्र का कोई स्कीम प्लान उपलब्ध नहीं था, सर्वे नहीं किया गया। अवाप्तिग्रस्त भूमि के हितधारी कब्जाधारियों के संबंध में कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं की गई। इस प्रकार अवाप्ति के सम्बन्ध में अग्रेसर सभी कार्यवाही निरस्तनीय है। धारा 3 की अधिसूचना के पश्चात अवधि के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न ही नहीं की गई और इस प्रकार धारा 3 की अधिसूचना के दिवस को ही पब्लिकेशन किया माना जाना स्पष्टतः प्रमाणित है, इसके पश्चात धारा 3 डी अधिसूचना निर्धारित अवधि एक वर्ष में प्रकाशित नहीं की गई। प्रार्थी उज्जदार की भूमि के संबंध में धारा 3 की विज्ञप्ति विधि विरुद्ध है और ऐसी कोई विज्ञप्ति कानूनन जारी नहीं हो सकती थी। क्योंकि कथित धारा 3 (डी) की रिपोर्ट अपूर्ण है तथा उस पर कतई मार्शण्ड एप्लॉई नहीं किया गया। प्रार्थी को धारा 3 (सी) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इस पर भी



सर्वे
र

कार्यवाही अवाप्ति के संबंध में प्रसारित धारा 3 की अधिसूचना निरस्तनीय है। धारा 3 की अधिसूचना दिनांक 30.05.2020 को आदेशित की गई व जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में दिनांक 1 जुलाई 2002 को किया गया है। इस प्रकार प्रकाशन स्पष्टतः एक माह की अवधि के पश्चात है जो कानून अवैध है। वस्तुतः अवाप्तिग्रस्त भूमि का मानचित्र तैयार ही नहीं किया गया और वह उक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहा और न ही कोई स्कीम प्लान अथ उपलब्ध है। इस आधार पर भी अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। दावेदार की भूमि पर एक विशाल आधुनिक ओरवार्ड बगीचा भी है। दावेदार की भूमि को अवाप्ति किये जाने की स्थिति में इसके द्वारा किया गया वर्षों का परिश्रम निरर्थक हो जावेगा। प्रार्थी दावेदार की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है। तीन फसली है, अत्यधिक उर्वरकों से विकसित की हुई है। प्रार्थी की भूमि की बाजार दर 2000/-रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर कम से कम आंकलित किये जाने योग्य है। क्योंकि अवाप्ति ग्रस्त भूमि का उपयोग वाणिज्यिक कार्य में हो सकता है एवं विपक्षी द्वारा पथकर लेने के उपरान्त वाणिज्यिक कार्य लिया जावेगा। सक्षम अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत की गई है। इस कारण समस्त अवाप्ति कार्यवाही अवैध व प्रभाव शून्य है। अधिसूचना धारा 3 के दिवस अर्थात् 30 मई 2002 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अपने मूल स्वरूप में प्रभावशील नहीं रहा है। इस कारण भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्ति कार्यवाही नहीं की जा सकती। भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग विषयक राष्ट्रीय राजमार्ग विधि या (संशोधन) अधिनियम 1997 (दी नेशनल हाईवे लाज) एमेन्डमेन्ट एक्ट 1997 एक्ट नम्बर 16 ऑफ 1997 प्रभावशील रहा है तथा जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हरमाडा चन्दवाजी जयपुर बाईपास सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के सन्दर्भित अधिग्रहण की कार्यवाही इस 1997 के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जा सकती है। इस कारण भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही अवैध एवं प्रभाव शून्य है। हरमाडा से चन्दवाजी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व में ही 150 फिट चौड़ा है जिस पर 2-3 वाहन आसानी से एक साथ जा सकते हैं तथा एक दूसरी के सामने से भी 2-3 वाहन जा सकते हैं। इस कारण राजमार्ग को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में इसी राजमार्ग से जयपुर से दिल्ली के लिए वाहनों की आवाजाही होती रही है, किन्तु अजमेर सीकर दिल्ली होकर प्रथक राजमार्ग बनाने से वाहनो की संख्या अपेक्षाकृत कम हुई है। इस कारण अवाप्ति कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि विधि विरुद्ध तौर पर अवाप्त की जा रही है, जबकि पूर्व में ही भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 विधिक रूप से प्रभावी है। तथा राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सार्वजनिक प्रयोजन की सभी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों से ही अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती रही है। लोक कल्याणकारी राज्य के भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को प्रभावित कर जनता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उचित अनुतोष नहीं देकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में अनुचित संशोधन कर अधिग्रहण की कार्यवाही कर भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों को हटाकर भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 का स्पष्टतः उल्लंघन किया है। इस कारण सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही निरस्तनीय है। प्रार्थी को आज तक विभाग द्वारा कोई नोटिस सूचना आदि प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा कथित तौर पर अवार्ड पारित करने से पूर्व कोई नोटिस व अवसर बाबत पक्ष समर्थन नहीं दिया गया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त



जयपुर

विशेष जाने योग्य है। प्रार्थी की भूमि नगर निगम शहर जयपुर के निकट के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसमें निर्माण कार्य आदि हो रखा है। प्रार्थी की भूमि पर बिजली लगी हुई है तथा आस पास में टेलीफोन भी लगे हुए हैं तथा कुए के माध्यम से पानी भी प्राप्त होता है इसके अलावा प्रार्थी की भूमि जयपुर स्थित कलवट्टी रो 30 किलोमीटर पर स्थित है तथा हरमाडा रो चन्दवाजी रोड 4 किलोमीटर पर स्थित है। निरन्त आवासीय प्रयोजनार्थ महानगर का विकसित रूप बनता जा रहा है। दिल्ली रोड पर प्रार्थी की जमीन के पास काफी सारे व्यवसायिक कार्य होते हैं तथा सैकड़ों कालोनिया आवासीय कालोनियों के रूप में विकसित हो चुकी है। प्रार्थी की भूमि के पास राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित है। प्रार्थी की जमीन व उसके आस पास की जमीन की कीमतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस हेतु प्रार्थी अपनी जमीन की स्थिति व उस पर बने स्ट्रेक्टर, वाउण्डरी वाल, पेड-पौधे, अवासा, पक्का निर्माण, चैनल्स, व होदिया तथा गेट के बाबत मुआवजा राशि निर्धारण कराने की प्रार्थना है। प्रार्थी को अवार्ड बाबत मान्यवर द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई और न ही अवार्ड की प्रति उपलब्ध कराई है। काफी प्रयास करने के पश्चात सम्पूर्ण अवार्ड की प्रति उपलब्ध नहीं करवा कर मात्र अवार्ड राशि की जानकारी दी गई है, इससे स्पष्ट है कि अवार्ड की राशि मौके की वास्तविक स्थिति क्षतिपूर्ति राशि एवं मौके पर स्थित निर्माण कार्य की क्षतिपूर्ति बाबत पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी उक्त कथित अवार्ड को स्वीकार नहीं कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु निवेदन करता है। प्रार्थी ने ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर की जमीन की कीमत दस लाख रुपया प्रति बीघा बाजार मूल्य है, इससे कम दर पर भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती, किन्तु कतिपय कारणों से विक्रय पत्रों की रजिस्ट्रियां कम मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, किन्तु वास्तविक विक्रय मूल्य दस लाख रुपया एवं इससे अधिक पर ही होता है। प्रार्थी की अवाप्ति की कार्यवाही की जांच के दौरान सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस कारण प्रार्थी अपने पक्ष का समर्थन प्रस्तुत नहीं कर सकता। अतः प्रार्थी की वैधानिक आपत्तियों को प्रथम निस्तारण किया जाकर यदि अवाप्ति कार्यवाही को न्याय स्थापित माना जावे तो ऐसी परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण की राशि क्षतिपूर्ति विपक्षी विभाग से मय ध्याज दिलवाये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये लिखित बहस पेश करते हुये दलील प्रस्तुत की कि सक्षम अधिकारी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त रेटों के अनुसार आवासीय व व्यवसायिक भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित कृषि भूमि की तीन गुणा दर को आवासीय तथा आवासीय की तीन गुणा दर को व्यवसायिक दर माना गया है। आवासीय व व्यवसायिक दर के अनुसार मुआवजा उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया है, जिनको भूमि का विधि अनुसार रूपान्तरण हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति ने बिना भूमि के रूपान्तरण के कृषि भूमि का उपयोग आवासीय अथवा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कर रखा था, तो उनको विधि के प्रावधान के अनुसार मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो पूर्णतया सही है। राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी के अनुसार जिसके नाम अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म दर्ज थी। उसके आधार पर एवं उसी के हक में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो पूर्णतया न्यायोचित एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप है तथा प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य किसी दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी की गई अधिसूचनायें व भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही व राजमार्ग के निर्माण जो कि पूर्ण हो

चुका है, कि समस्त कार्यवाही पूर्णतया विधिक व सही है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवीट्रेशन प्रार्थना पत्र में केन्द्र रकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को चुनौति दी गई है। अधिसूचनाओं की चुनौति बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी अधिसूचना अथवा अवाप्ति की कार्यवाही को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौति नहीं दे सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने योग्य है। यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर से कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही मुआवजा राशी दी गई है, जो कि पूर्णतया सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्तशुदा भूमि को बिना विधिवित रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकार्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसी अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु उप पंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 (ए) की दिनांक की मार्केट वैल्यू मंगवाई गई थी। जो कि उप पंजीयक द्वारा सक्षम अधिकारी को भेजी गई थी। उप पंजीयक द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे, अन्य मुख्य सड़क एवं सड़क से दूरी तक के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि कि किस्म के अनुसार दी गई थी, उसे ही अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु चयनित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारित करते हुए अभिनिर्णय पारित किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर स्थित निर्माण, कुआ/ट्यूबवैल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार स्वतंत्र कन्सलटेंसी/पीडब्लूडी के इंजीयर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बैसिक शेड्यूल ऑफ रेट बी.एस.आर. के अनुसार मूल्यांकन करवा कर निर्धारित किया गया है, जो उचित एवं पर्याप्त है। विवादित अवाप्तशुदा भूमि नियमानुसार रूपान्तरित भूमि नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा जो मुआवजा निर्धारित किया गया वह राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि की किस्म के आधार पर किया गया है तथा यदि प्रार्थी की भूमि रूपान्तरित होती तो उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होता, जो नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि रूपान्तरित भूमि नहीं है प्रार्थी अपनी अवाप्तशुदा भूमि को बिना नियमानुसार रूपान्तरित करवाये अन्य किसी उपयोग में ले रहा था, तो उसके लिए व स्वयं जिम्मेदार है, परन्तु ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कमी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि की किस्म एवं खातेदारी के आधार पर पर्याप्त प्रतिकर निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि की प्रकृति उपयोग एवं उपादेयता के आधार पर तथा आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उल्लेखित प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जो उचित एवं पर्याप्त है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत मुआवजे की गणना रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म की दर से की गई है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत, सही व



लवटर
पुर

लुप्त है। मानवीय उत्पन्न न्यायालय द्वारा भी पारित निर्णय में भूमि अवाप्ति के लक्ष्य प्रकटित की एल सी रेट पर भूमि का मुआवजा तय करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः प्राची का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज करमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई महसुस को गौर से सुना गया। पञ्चानली का शहीदाती अवलोकन किया गया।
7. अभीलाधी ने इस प्रार्थना पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 हेतु अवाप्त की जा रही भूमि को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति एवं अधिसूचना 3 (ए) एवं 3 (बी) को चुनौति देते हुये मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से दिये जाने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं अधिसूचनाओं के निरुद्ध सुनवाई किये जाने का शेरधिकार इस न्यायालय को नहीं है। केवल राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमियों का मुआवजा कम या अधिक दिये जाने के विवाद के लिए कलकत्ता को आर्बीट्रेशन नियुक्ति किया गया है। प्राची ने अपनी भूमि का वाणिज्यिक मुआवजा दिये जाने का विवेदन किया है किन्तु कृषि भूमि का वाणिज्यिक रूप में संपरिवर्तित किये जाने का सक्षम अधिकारी का कोई आदेश पेश नहीं किया गया है। जिससे अवाप्तिधीन कृषि भूमि को वाणिज्यिक भूमि नहीं मानी जा सकती है। केवल मात्र अवाप्तिधीन भूमि के आसपास वाणिज्यिक गतिविधियां होने के आधार पर कृषि भूमि का वाणिज्यिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्राची का वाणिज्यिक दर से मुआवजा दिये जाने का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि की किराए के आधार पर तत्समय की डी एल सी दर के अनुरूप एवं भीके पर निर्माण कार्य का डी एल आर की दर से मुआवजा राशि का मुमत्तान किया जा चुका है जो विधि सम्मत प्राया गया है। अतः इस सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये अनाई में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप प्राची की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
8. निर्णय की प्रति हस्त कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पञ्चानली नम्बर से कम हो कर शुमार करार



निर्णय आज दिनांक 27/12/2021 को शरि इजलास सुनाया गया।

(अन्तर सिंह नेहरा)
शिला कलकत्ता
जयपुर